



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 25-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 20, 2023 (JYAISTHA 30, 1945 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 13 जून, 2023

**क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).**— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12.06.2023 से 11.09.2023 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 12 जून, 2023.

टी०वी०एस०एन० प्रसाद,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।